



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 673) पटना, बृहस्पतिवार, 14 अगस्त 2014

सं0 08/आरोप-01-197/2014, सां0प्र0-10970

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 अगस्त 2014

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रामजी सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-243/11 तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा सम्प्रति संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-73/गो० दिनांक 09.01.2013 एवं पत्रांक-959/गो० दिनांक 15.07.2014 के द्वारा प्रतिवेदित आरोप जिसके अनुसार श्री सिंह पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतना/मनरेगा, इंदिरा आवास योजना छात्रवृत्ति भुगतान आदि के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं निरीक्षण आदि कार्यों में उपेक्षा बरतना/ए०सी० विपत्र के विरुद्ध डी०सी० विपत्र भेजने में लापरवाही बरतना/जाँच कार्यों में उपेक्षा/अनु० जाति के पदाधिकारी के साथ दुरुव्यवहार करने, एवं नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 में कार्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने, आदि से संबंधित है, जैसा कि अनुलग्नक आरोप प्रपत्र “क” में वर्णित है पर विधिवत जाँच आवश्यक है।

2. अतएव श्री रामजी सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-243/11 तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा सम्प्रति संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट सभी आरोपों की सम्यक् जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विहित रीति से जाँच करने हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री रामजी सिंह, (बि०प्र०से०), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा सम्प्रति संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना उन्हें अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक, प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 673-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>